





नोट:-
1. कार्यालय में उपस्थित कमिटी/देवता को जिला विकास योजना में अंकित कर दिया गया है यदि कोई कमिटी/देवता बुद्धिमान अधिकारी को यह पता है तो उसको सम्बोधित करना इस जिला विकास योजना की धारा है।
2. लालक, नदी, नाले आदि का सीमांकन विभागीय एवं राज्य स्तर के अनुसार ही मान्य होगा।
3. जिला विकास योजना के क्षेत्र में आ रही एच.टी. लाईन से नियमानुसार सुरक्षा दूरी छोड़ी जायेगी।
4. यह जिला विकास योजना मानचित्र 2031 को माना जायेगा।
5. जी.डी. विवरण रिपोर्ट 1954/2004 में वर्णित उपर्युक्त विवरण द्वारा जिला विकास को भी अधिकृत निकायों के अनुसार ही मान्य होगा।
6. जिला विकास योजना में आवश्यकता अनुसार मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित सड़कों के अतिरिक्त नवीन रूप से सड़कों के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं।
7. जिला विकास योजना में प्रस्तावित 24 मीटर व अधिक सड़कों के सहारे सड़क की चौड़ाई की 1.5 गुणा या एकल मुकाम की गहराई तक (जो भी कम हो) शिथिल उपकरण (आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक व राजस्व) अनुमति होगी।
8. जिला नदी के सहारे दोनों ओर राजस्व सीमा के पश्चात 30 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी एवं उसके बाद 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव रखा गया है।
9. छोटे राजस्व वाले, लालक, नदी आदि के सहारे राजस्व सीमा के पश्चात 9 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी का प्रस्ताव रखा गया है।
10. खा एवं अन्य प्रतीक/चिह्न से सुरक्षा दूरी, खा मंत्रालय, कंट व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुसार ही रखी जानी होगी।

ZONE N3

Key Map



LEGEND सांकेतिक

LANDUSE भू उपयोग
AS PER PROPOSED MASTER PLAN
RESIDENTIAL आवासीय
RENTAL आवासीय
COMMERCIAL वाणिज्यिक
COMMERCIAL CENTER/DISTRICT CENTER वाणिज्यिक केंद्र
WAREHOUSING AND GODOWNS भण्डारण एवं गोदाम
RECREATIONAL आवासीय - प्रमोद
OPEN SPACE/PLAY GROUND & STADIUM पार्क, खेल के मैदान एवं स्टेडियम

MIXED USE मिश्रित उपयोग
TOURIST FACILITIES पर्यटन सुविधाएं
INDUSTRIAL औद्योगिक
INDUSTRIES उद्योग
MINING AND QUARRYING खनन एवं खनन
GOVERNMENTAL सरकारी
GOVERNMENT/PSM-GOVERNMENT OFFICES सरकारी/अर्द्ध-सरकारी कार्यालय
GOVERNMENT RESERVED सरकारी आरक्षित
BRIDGE पुल

Zonal Development Plan 2031

PUBLIC AND SEMI-PUBLIC सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
S SENIOR SECONDARY / SECONDARY SCHOOL उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय
C COLLEGE / PROFESSIONAL COLLEGE / UNIVERSITY महाविद्यालय / पेशेवरिक महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
G GENERAL HOSPITAL / VETERINARY HOSPITAL जनरल हॉस्पिटल / पशु चिकित्सालय
R RELIGIOUS / HISTORICAL / SOCIAL / CULTURAL धार्मिक / ऐतिहासिक / सामाजिक / सांस्कृतिक
P PUBLIC UTILITIES (COMMUNITY TOILET / DRINKING WATER KIOSK) जनसुविधा सुविधाएं (समुदायिक शौचालय / पानी के कiosk का किताब)

CIRCULATION परिवहन
EXISTING ROADS मौजूदा सड़कें
PROPOSED ROAD PROPOSED ROAD PROPOSED ROAD
BUS STAND / TRANSPORT NAGAR बस स्टैंड / परिवहन नगर
RAILWAY LINE रेल लाईन
RAILWAY STATION रेलवे स्टेशन
HT LINE (12/220/400 KV) उच्च वोल्टेज बिजली लाईन (12/220/400 केवी)
HILL / HILLOCK पहाड़ी

WATER BODIES जल निकाय
RIVER / STREAM नदी / धारा
LAKE / POND झील / तालाब
BOUNDARIES सीमाएं
ZONE BOUNDARY जिला सीमा
VILLAGE BOUNDARY ग्राम सीमा
SPECIAL AREA-2

PROPOSED PLAN

ARMY AREA
BUFFER BOUNDARY
ZONAL LEVEL COMMUNITY FACILITIES

Zonal Development Plan 2031 North Zone N1, N2 (Part-3)


Consultants:

YCSPL Yashi Consulting Services Pvt. Ltd., Jaipur
501-510, 5th Floor, Kailash Tower, Lal Kothi
Tonk Road, Jaipur, Rajasthan 302015

NOTE:- THIS MAP BEARS APPROVAL OF JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Dated 2-NOV-2021

1:12,000

0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Kilometers



Assistant Town Planner	Deputy Town Planner	Executive Engineer	Deputy Commissioner	Director (Planning)	Secretary	Commissioner	Chairman
------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------------	----------

J O D H P U R D E V E L O P M E N T A U T H O R I T Y , J O D H P U R